

थाना- रानी की सराय

अवैध तमंचा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अग्रिम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान शराब विक्री की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराही के पटेल नगर मोड कस्बा रानी की सराय पर मौजूद थे कि मुखबीर खास आकर बताया कि एक व्यक्ति पटेल नगर रेलवे क्रॉसिंग पर असलहा लेकर खड़ा है तथा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर मय हमराही व मुखबीर को साथ पटेल नगर तिराहे पर खड़ा व्यक्ति अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र श्रीराम विश्वकर्मा ग्राम संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 110 रु० नकद बरामद हुआ। अभियुक्त को आज दिनांक 17.04.2021 को समय करीब 07.45 बजे गिरफ्तार कर उपस्थित थाना आकर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 41/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान – पटेल नगर रेलवे क्रॉसिंग कस्बा थाना रानी की सराय समय 07.45 बजे दिनांक 17.04.2021

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त के द्वारा पूछताछ पर जुर्म को स्वीकार करते हुए अपनी गलती की बार बार माफी माँग रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1- मु०अ०सं० 0041/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र श्रीराम विश्वकर्मा ग्राम संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० राज कुमार तिवारी, मय हमराह कां० अमित कुमार बर्मा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना-निजामाबाद

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चेकिंग संदिग्ध/वांछित, अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी फरिहा रत्नेश कुमार दूबे मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध/वांछित चेकिंग में मामूर थे कि मुहम्मदपुर पुलिया के पास से राजेलाल पुत्र सहजू साकिन फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ की जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अवैध असलहा की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० - 81/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा०न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु०अ०सं० - 81/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राजेलाल पुत्र सहजू साकिन फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी-

1- एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे थाना निजामाबाद, आजमगढ़

2. का० संतोष कुमार गुप्ता थाना निजामाबाद, आजमगढ़